

पार्वती के भरतार, करेंगे भव से बेड़ा पार :::---

रटो पार्वती के भरतार, करेंगे भव से बेड़ा पार ।

शिव नंदे के असवार -२, करेंगे भव से बेड़ा पार ॥

कैलाश के राजा आप महाराजा, शोभा बरणी न जाई ।

गौरा संग में बाए अंग में, शेषनाग लिपटाए ।

जटा जूट में गंग की धार, करेंगे भव से बेड़ा पार ॥ १ ॥

भष्मासुर सुर को दे दिया हरी ने, भष्म कड़ा अतिभारी ।

वो दीवाना सोचे दाना, हर ल्यु शिव कि नारी ।

लिया मन में कपट विचार , करेंगे भव से बेड़ा पार ॥ २ ॥

शम्भू भाग्या डर जब लाग्या, तीन लोक घबराये ।

देवो ने जब माया पलटी, विष्णु प्रकट हो आये ।

लिया रूप मोहिनी धार, करेंगे भव से बेड़ा पार ॥ ३ ॥

सीताराम राधेश्याम , रटता माला तेरी ।

आया शरण में पड़्या चरण में, लाज राखियो म्हारी ।

शिव निराधार आधार, करेंगे भव से बेड़ा पार ॥ ४ ॥

जय शंकर की....

जय श्री नाथजी की..